



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1945 (श0)  
(सं0 पटना 1) पटना, मंगलवार, 2 जनवरी 2024

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना  
15 दिसम्बर 2023

सं० स्था०(मु०)विविध-13-29/2013/313 सू०ज०स०वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014” का संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—
  - यह नियमावली “सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2023” कही जायेगी।
  - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-2 (ग) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-2 के उप-नियम (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“(ग) “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग।”
- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, छायाकार (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-4(4) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-4 के उप-नियम (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।

“4.(4) बिहार तकनीकी सेवा आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यावहारिक दक्षता जाँच के आधार पर अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हता आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से अवधारित किया जा सकेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शिव शंकर लाल श्रीवास्तव,  
सरकार के उप सचिव।

**15<sup>th</sup> December 2023**

**No.-Stha. (Mu.)vividh-3-29/2013/313 IPRD**—In exercise of the powers conferred by the Proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for the amendment to the **"Information and Public Relations Department Photographer (Recruitment, Promotion and Service condition) Cadre Rules-2014"**

**1. Short title, extent and commencement :-**

1. These Rules shall be called **"Information and Public Relations Department Photographer (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules,2023."**

(2) It shall be extended to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

**2. Sub Rule (C) of rule 2- of Information and Public Relations Department Photographer (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules-2014 shall be substituted as follows:-**

" (c) "Commission" means the Bihar Technical Service Commission."

**3. Sub Rule (4) of rule 4- of Information and Public Relations Department Photographer (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules-2014 shall be substituted as follows:-**

**"4 (4) The Bihar Technical Service Commission shall prepare a merit list on the basis of minimum qualifying marks obtained in the written competitive examination and practical skill test and send its recommendation to the appointing authority. The Commission shall determine the syllabus for written competitive examination and qualifying marks, in consultation with the Department."**

**By the order of the Governor of Bihar,**

**Shiv Shankar Lal Srivastava,**

Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>